

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 433 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर  
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-71/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत सरिया, जिला-रायगढ़ के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. सरिया नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	स्वामी विवेकानंद वार्ड
2	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
3	वीर सावरकर वार्ड
4	सुभाषचंद्र बोस वार्ड
5	स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड
6	शहीद भगतसिंह वार्ड
7	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
8	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
9	रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड
10	ठंदिरा गांधी वार्ड
11	विनोबा भावे वार्ड
12	महात्मा गांधी वार्ड
13	सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
14	महाराणा प्रताप वार्ड
15	डॉ. अम्बेडकर वार्ड

### सरिया नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

#### वार्ड क्र० - 01 स्वामी विवेकानंद वार्ड

उत्तर	—	राजु धांगड़ के घर से भुवनेश्वर पांडे के घर तक ।
पूर्व	—	भुवनेश्वर पांडे के घर से श्यामबाई नामदेव के घर तक ।
दक्षिण	—	श्यामबाई नामदेव के घर से प्रेमाबाई सिदार के घर तक ।
पश्चिम	—	प्रेमाबाई सिदार के घर से राजु धांगड़ के घर तक ।

#### वार्ड क्र० - 02 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

उत्तर	—	ब्रजेन्द्र प्रधान के घर से परमेश्वर बडाई के घर तक ।
पूर्व	—	परमेश्वर बडाई के घर से सूरजमल अग्रवाल के घर तक ।
दक्षिण	—	सूरजमल अग्रवाल के घर से लखनलाल स्वर्णकार के घर तक ।
पश्चिम	—	लखनलाल स्वर्णकार के घर से ब्रजेन्द्र प्रधान के घर तक ।

**वार्ड क्र0 - 03 वीर सावरकर वार्ड**

उत्तर	-	हराधन बडाई के घर से भोजराम चौहान के घर तक ।
पूर्व	-	भोजराम चौहान के घर से गदाधर प्रधान के घर तक ।
दक्षिण	-	गदाधर प्रधान के घर से आनंद अग्रवाल के घर तक ।
पश्चिम	-	आनंद अग्रवाल के घर से हराधन बडाई के घर तक ।

**वार्ड क्र0 - 04 सुभाषचंद्र बोस वार्ड**

उत्तर	-	विपिन स्वर्णकार के घर से सिंधु प्रधान के घर तक ।
पूर्व	-	सिंधु प्रधान के घर से चतुर गोंड के घर तक ।
दक्षिण	-	चतुर गोंड के घर से घनश्याम स्वर्णकार के घर तक ।
पश्चिम	-	घनश्याम स्वर्णकार के घर से विपिन स्वर्णकार के घर तक ।

**वार्ड क्र0 - 05 स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड**

उत्तर	-	विजय अग्रवाल के घर से संतराम मेहर के घर तक ।
पूर्व	-	संतराम मेहर के घर से पानबाई मेहर के घर तक ।
दक्षिण	-	पानबाई मेहर के घर से लालमोहन निषाद के घर तक ।
पश्चिम	-	लालमोहन निषाद के घर से विजय अग्रवाल के घर तक ।

**वार्ड क्र0 - 06 शहीद भगत सिंह वार्ड**

उत्तर	-	विरेन्द्र पटेल के घर से भुपदेव ईजारदार के घर तक ।
पूर्व	-	भुपदेव ईजारदार के घर से रामकुमार अग्रवाल के घर तक ।
दक्षिण	-	रामकुमार अग्रवाल के घर से संजय प्रधान के घर तक ।
पश्चिम	-	संजय प्रधान के घर से विरेन्द्र पटेल के घर तक ।

**वार्ड क्र0 - 07 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड**

उत्तर	-	एकादशिया साव के घर से सीताराम डनसेना के घर तक ।
पूर्व	-	सीताराम डनसेना के घर से रघुनाथ प्रधान के घर तक ।
दक्षिण	-	रघुनाथ प्रधान के घर से पुनीराम चौहान के घर तक ।
पश्चिम	-	पुनीराम चौहान के घर से एकादशिया साव के घर तक ।

**वार्ड क्र0 - 08 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड**

उत्तर	-	कृष्णचंद दुवान के घर से कैलाश अग्रवाल के घर तक ।
पूर्व	-	कैलाश अग्रवाल के घर से रामकुमार यादव के घर तक ।
दक्षिण	-	रामकुमार यादव के घर से छोटेलाल सिदार के घर तक ।
पश्चिम	-	छोटेलाल सिदार के घर से कृष्णचंद दुवान के घर तक ।

**वार्ड क्र० - 09 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड**

उत्तर	—	जशमती तिग्गा के घर से भुबनेश्वर प्रधान के घर तक ।
पूर्व	—	भुबनेश्वर प्रधान के घर से राम कुमार पटेल के घर तक ।
दक्षिण	—	रामकुमार पटेल के घर से नारायण अग्रवाल के घर तक ।
पश्चिम	—	नारायण अग्रवाल के घर से जशमती तिग्गा के घर तक ।

**वार्ड क्र० - 10 इंदिरा गांधी वार्ड**

उत्तर	—	मुन्ना मेहर के घर से बोधराम प्रधान के घर तक ।
पूर्व	—	बोधराम प्रधान के घर से संनातन धांगड़ के घर तक ।
दक्षिण	—	संनातन धांगड़ के घर से सुभाष शराफ के घर तक ।
पश्चिम	—	सुभाष शराफ के घर से मुन्ना मेहर के घर तक ।

**वार्ड क्र० - 11 विनोबा भावे वार्ड**

उत्तर	—	लोकनाथ पटेल से बंसत अग्रवाल के घर तक ।
पूर्व	—	बंसत अग्रवाल से मुरारीलाल शर्मा के घर तक ।
दक्षिण	—	मुरारीलाल शर्मा के घर से धनमती धांगड़ के घर तक ।
पश्चिम	—	धनमती धांगड़ के घर से लोकनाथ पटेल के घर तक ।

**वार्ड क्र० - 12 महात्मा गांधी वार्ड**

उत्तर	—	आदित्य प्रधान के घर से मीनाबाई पटेल के घर तक ।
पूर्व	—	मीनाबाई पटेल के घर से खीरबाई पटेल के घर तक ।
दक्षिण	—	खीरबाई पटेल के घर से मोहितराम बानी के घर तक ।
पश्चिम	—	मोहितराम बानी के घर से आदित्य प्रधान के घर तक ।

**वार्ड क्र० - 13 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड**

उत्तर	—	भगवान प्रसाद अग्रवाल के घर से प्रताप तिवारी के घर तक ।
पूर्व	—	प्रताप तिवारी के घर से लक्ष्मण लहरे के घर तक ।
दक्षिण	—	लक्ष्मण लहरे के घर से नोहरसिंह पटेल के घर तक ।
पश्चिम	—	नोहरसिंह पटेल के घर से भगवान प्रसाद अग्रवाल के घर तक ।

**वार्ड क्र० - 14 महाराणा प्रताप वार्ड**

उत्तर	—	बुद्धेश्वर प्रधान के घर से चंद्रशेखर वैष्णव के घर तक ।
पूर्व	—	चंद्रशेखर वैष्णव के घर से धोबालाल सिदार के घर तक ।
दक्षिण	—	धोबालाल सिदार के घर से लालसाय स्वर्णकार के घर तक ।
पश्चिम	—	लालसाय स्वर्णकार के घर से बुद्धेश्वर प्रधान के घर तक ।

**वार्ड क्र0 - 15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड**

- उत्तर - मनोहरलाल देवांगन के घर से नित्यानंद प्रधान के घर तक ।  
 पूर्व - नित्यानंद प्रधान के घर से अनिल पटेल के घर तक ।  
 दक्षिण - अनिल पटेल के घर से मनप्यारी पात्रे के घर तक ।  
 पश्चिम - मनप्यारी पात्रे के घर से मनोहरलाल देवांगन के घर तक ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-71/2019/18.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-71/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 12th July 2019

**NOTIFICATION**

No. F 1-71/2019/18.-In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Saria, Distt. Raigarh as per schedule given Below :

1. Divides Nagar Panchayat Saria into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

**SCHEDULE**

S.No.of ward	Name of the ward
1	Swami Vivekananda Ward
2	Rani Laxmibai Ward
3	Veer Savrkar Ward
4	Subhashchandra Bose Ward
5	Swami Dayanand Saraswati Ward
6	Shaheed BhagatSingh Ward
7	Dr.Shyama Prasad Mukherjee Ward

8	Pandit Dindayal Upadhyay Ward
9	Rabindranath Tagore Ward
10	Indira Gandhi Ward
11	Vinoba bhave Ward
12	Mahatma Gandhi Ward
13	Sardar VallabhBhai Patel Ward
14	Maharana Pratap Ward
15	Dr. Ambedker Ward

### **Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Saria**

#### **Ward No. 01 Swami Vivekananda Ward**

- North — From Raju Dhangarh House to Bhuvneswar Pandey House.  
 East — From Bhuvneswar Pandey House to Shyambai Namdev House.  
 South — From Shyambai Namdev House to Premabai Sidar House.  
 West — From Premabai Sidar House to Raju Dhangarh House.

#### **Ward No. 02 Rani Laxmibai Ward**

- North — From Brajendra Pradhan House to Parmeshwar badai House.  
 East — From Parmeshwar badai House to Surajmal Agrwal House.  
 South — From Surajmal Agrawal House to Lakhanlal Swarnkar House.  
 West — Lakhanlal Swarnkar House to Brajendra Pradhan House.

#### **Ward No. 03 Veer Savrkar Ward**

- North — From Haradhan Badhai House to Bhojram Chouhan House.  
 East — From Bhojram Chouhan House to Gadadhar Pradhan House.  
 South — From Gadadhar Pradhan House to Anand Agrawal House.  
 West — From Anand Agrawal House to Haradhan Badhai House.

#### **Ward No. 04 Subhashchandra Bose Ward**

- North — From Vipin Swarnkar House to Sindhu Pradhan House.  
 East — From Sindhu Pradhan House to Chatur Gond House.  
 South — From Chatur Gond House to Ghanshyam Swarnkar House.  
 West — From Ghanshyam Swarnkar House to Vipin Swarnkar House.

**Ward No. 05 Swami Dayanand Saraswati Ward**

- North — From Vijay Agrawal House to Santram Mehar House.  
 East — From Santram Mehar House to Panbai Mehar House.  
 South — From Panbai Mehar House to Lalmohan Nishad House.  
 West — From Lalmohan Nishad House to Vijay Agrawal House.

**Ward No.06 Shahid Bhagat Singh Ward**

- North — From Virendra Patel House to Bhupdev Ijardar House.  
 East — From Bhupdev Ijardar House to Ramkumar Agrawal House.  
 South — From Ramkumar Agrawal House to Sanjay Pradhan House.  
 West — From Sanjay Pradhan House to Virendra Patel House.

**Ward No. 07 Dr.Shyama Prasad Mukherjee Ward**

- North — From Ekdshiya Saw House to Sitaram Dansena House.  
 East — From Sitaram Dansena House to Raghunath Pradhan House.  
 South — From Raghunath Pradhan House to Puniram Chouhan House.  
 West — From Puniram Chouhan House to Ekdshiya Saw House.

**Ward No. 08 Pandit Dindayal Upadhyay Ward**

- North — From Krishanchand Duwan House to Kailash Agrawal House.  
 East — From Kailash Agrawal House to Ramkumar Yadav House.  
 South — From Ramkumar Yadav house to Chhotelal Sidar House.  
 West — From Chotelal Sidar House to Krishanchand Duwan House.

**Ward No. 09 Rabindranath Tagore Ward**

- North — From Jasmati Tigga House to Bhuvaneshwar Pradhan House.  
 East — From Bhuvaneshwar Pradhan House to Ramkumar Patel House.  
 South — From Ramkumar Patel House to Narayan Agrawal House.  
 West — From Narayan Agrawal House to Jasmati Tigga House.

**Ward No. 10 Indira Gandhi Ward**

- North — From Munna Mehar House to Bodhram Pradhan House.  
 East — From Bodhram Pradhan House to Sanatan Dhangarh House.  
 South — From Sanatan Dhangarh House to Subhash Sharaf House.  
 West — From Shbhash Sharaf House to Munna Mehar House.

**Ward No. 11 Vinobabhawe Ward**

- North — From Loknath Patel House to Basant Agrawal House.  
 East — From Basant Agrawal House to Murarilal Sharma House.  
 South — From Murarilal Sharma House to Dhanmati Dhangarh House.  
 West — From Dhanmati Dhangarh House to Loknath Patel House.

**Ward No. 12 Mahatma Gandhi Ward**

- North — From Aditya Pradhan House to Minabai Patel House.  
 East — From Minabai Patel House to Khirbai Patel House.  
 South — From Khirbai Patel House to Mohitram Bani House.  
 West — From Mohitram Bani house to Aditya Pradhan House.

**Ward No. 13 Sardar VallabhBhai Patel Ward**

- North — From Bhagwan Prasad Agrawal House to Pratap Tiwari House.  
 East — From Pratap Tiwari House to Laxman Lahre House.  
 South — From Lxlmnan Lahre House to Noharsingh Patel House.  
 West — From Noharsingh Patel House to Bhagwan Prasad House.

**Ward No. 14 Maharana Pratap Ward**

- North — From Budheshwar Pradhan House to Chandrashekhar Vaishnav House.  
 East — From Chandrashekhar Vaishnav House to Dhobalal Sidar House.  
 South — From Dhobalal Sidar house to Lalsay Swarnkar House.  
 West — From Lalsay Swarnkar House to Bhudheshwar Pradhan House.

**Ward No. 15 Dr. Ambedker Ward**

- North — From Manohar Lal Dewangan House to Nityanand Pradhan House.  
 East — From Nityanand Pradhan House to Anil Patel House.  
 South — From Anil Patel House to Manpyari Patre House.  
 West — From Manpyari Patre Houe to Manohar Lal Dewangan House.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,  
 R. EKKA, Deputy Secretary.